



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 303) पटना, मंगलवार, 19 मार्च 2024

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना
11 मार्च 2024

सं0 सं0 6/एन0-02-29/2023-438(6)/स्वा0—बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा प्राचार्य के पद पर पार्ष्वक नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-08/2022 के अन्तर्गत कुल-35 चयनित अभ्यर्थियों की आयोग के पत्रांक-2611, दिनांक-21.09.2023 द्वारा अनुशंसा प्राप्त हुई है। अनुशंसित 35 अभ्यर्थियों में से 11 अभ्यर्थियों के विरुद्ध राज्य से बाहर का मूल निवासी होने के बावजूद आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चयनित होने तथा 2 अभ्यर्थियों के विरुद्ध जी0एन0एम0 के पद पर कार्य करते हुए एक ही समय में एम0एस0सी0 (नर्सिंग) की डिग्री प्राप्त करने का आक्षेप है। उक्त 11+2 कुल-13 अभ्यर्थियों के विरुद्ध आक्षेपित मामले का विस्तृत एवं अग्रतर जांच के फलाफल के आधार पर नियुक्ति/पदस्थापन पर निर्णय लिया जायेगा।

अतः अनुशंसित 35 अभ्यर्थियों में से उक्त आक्षेपित 13 अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष 22 अभ्यर्थियों को बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग में वेतन स्तर-9 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों सहित परीक्ष्यमान रूप से प्राचार्य (नर्सिंग) के पद पर पार्ष्वक नियुक्ति करते हुए कंडिका-9 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक निम्नवत् पदस्थापित किया जाता है:-

S. No.	Name	Registration No	Samekit Merit No	Category	Selection Category	Date of Birth	Home District	Posting Place
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MayaVerma	BR00120010000602	1	UR	UR	18.01.1984	Katihar	GNM School, Banka
2	Hariher Gupta	BR00120010000493	2	UR	UR	20.11.1988	Rajasthan	ANM School, Bettiah

S. No.	Name	Registration No	Samekit Merit No	Category	Selection Category	Date of Birth	Home District	Posting Place
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Ravindra Singh	BR00120010000332	3	UR	UR	02.04.1990	Rajasthan	B.Sc Nursing College, GMCH, Bettiah
4	Vinod Kumar	BR00120010000412	4	UR	UR	24.10.1985	Rajasthan	GNM School, Budhoul, Nawada
5	Rajesh Kumar Gaur	BR00120010000438	5	UR	UR	19.01.1991	Rajasthan	ANM School, Dhamdaha, Purnea.
6	Mohammad Aarif	BR00120010000395	6	UR	UR	10.08.1990	Rajasthan	ANM School, Katihar
7	Sarvan Lal Sharma	BR00120010000226	7	UR	UR	21.03.1986	Rajasthan	ANM School, Madhepura
8	Zeaul Haque	BR00120010000350	8	UR	UR	22.03.1985	Uttar Pradesh	GNM School, Madhuban, Sitamarhi
9	Jitendra Kumar	BR00120010000094	9	BC	UR	05.01.1986	Patna	ANM School, Manjhou, Begusarai.
10	Pragya Rani	BR00120010000365	10	EBC	UR	25.04.1984	Munger	GNM School, Motihara, Kishanganj
11	Santosh Talikoti	BR00120010000283	11	UR	UR	01.06.1985	Karnataka	ANM School, Motihari
12	Anuradha Dubey	BR00120010000232	12	UR	UR	20.07.1984	Uttar Pradesh	B.Sc Nursing College, Muzaffarpur
13	Ragini Kumari	BR00120010000356	13	EBC	URF	15.01.1981	Banka	ANM School Navgachiya, Bhagalpur
14	Sandhya Singh	BR00120010000393	14	UR	URF	05.12.1983	Vaishali	ANM School, Pakaridyal, East Champaran
15	Rani Kumari	BR00120010000343	15	EBC	URF	05.12.1986	Munger	ANM School, Paliganj, Patna

S. No.	Name	Registration No	Samekit Merit No	Category	Selection Category	Date of Birth	Home District	Posting Place
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Smita Kumari	BR00120010000416	37	EBC	EBC	29.08.1989	Samastipur	GNM School, VIMS, Pawapuri, Nalanda.
17	Nira Ray	BR00120010000344	40	EBC	EBC	12.11.1983	Nalanda	ANM School, Phulparas, Madhubani
18	Ruby Kumari Saha	BR00120010000463	45	EBC	EBC	10.03.1988	Samastipur	B.Sc Nursing College, GMCH, Purnea
19	Rashmi Ranjan	BR00120010000791	46	BC	BC	21.12.1992	Patna	ANM School, Raxoul, East Champaran
20	Mamta Bharti	BR00120010000211	54	EBC	EBC	08.12.1986	Patna	B.Sc Nursing College, Saran, Chappra
21	Swati Kumari	BR00120010000714	64	SC	SC	21.09.1988	Patna	ANM School, Triveniganj, Supaul
22	Ambalika Kumari	BR00120010000479	68	EBC	EBC	20.01.1994	Gaya	ANM School, Vayasi, Purnea

2—यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने/चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेवारी संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ संबंधित अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की होगी तथा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3—यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर उनके शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानकर इस शर्त के साथ की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों के गलत अथवा नियम विरुद्ध पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4—उपर्युक्त नवनियुक्त प्राचार्यों को निदेश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर निश्चित रूप से सभी प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के साथ संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक के समक्ष अपना योगदान देंगे तथा संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अधीक्षक की यह जवाबदेही होगी कि वे अपने जिले/अस्पताल परिसर में अवस्थित संस्थान में योगदान करने वाले नव पदस्थापित प्राचार्यों से उनके शैक्षणिक व अन्य संगत प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे तथा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही उनके सभी शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का संधारण करेंगे तथा उक्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर विभाग को अवगत करावेंगे।

5—पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में योगदान के समय त्यागपत्र स्वीकृति आदेश/विरमन आदेश समर्पित करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6—योगदान के समय नवनियुक्त प्राचार्य को असैनिक-शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7—योगदान की तिथि से ही वेतनादि का भुगतान किया जायेगा। संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल अधीक्षक विभागीय वेबसाइट से नियुक्ति पत्र की पुष्टि कर लेंगे।

8—नवनियुक्त प्राचार्यों का प्रथम वेतनादि का भुगतान उनके शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों, पुलिस सत्यापन आदि के अंतिम जांच प्रतिवेदन के फलाफल के आधार पर किया जायेगा। कोई भी प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

9—बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं संकल्प संख्या-768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त प्राचार्य नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

9—योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10—नवनियुक्त प्राचार्य को पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 303-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>